



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22112023-250196
CG-DL-E-22112023-250196

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 21, 2023/कार्तिक 30, 1945

No. 68]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 21, 2023/KARTIKA 30, 1945

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2023

आ.अ. 69(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसरण में, और अपनी पूर्ववर्ती अधिसूचना सं. 434/टीएन-एचपी/2019(1) दिनांक 04-02-2019, समय-समय पर यथा-संशोधित, का अधिक्रमण करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, तमिलनाडु राज्य सरकार के परामर्श से, एतद्वारा, नीचे दी गई तालिका के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी अधिकारियों को, तमिलनाडु राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों के रूप में नामोद्दिष्ट करता है, जैसा कि ऐसे अधिकारी के सामने उक्त तालिका के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट है:-

तालिका

| संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. एवं नाम (1) | रिटर्निंग अधिकारी (2) |
|---|--|
| 1-तिरुवल्लुर (अ.जा.) | कलक्टर, तिरुवल्लुर, तिरुवल्लुर |
| 2-चेन्नई उत्तर | क्षेत्रीय अपर/संयुक्त/उपायुक्त, उत्तरी क्षेत्र, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन |
| 3-चेन्नई दक्षिण | क्षेत्रीय अपर/संयुक्त/उपायुक्त, दक्षिणी क्षेत्र, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन |
| 4-चेन्नई केन्द्रीय | क्षेत्रीय अपर/संयुक्त/उपायुक्त, केन्द्रीय क्षेत्र, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन |
| 5-श्रीपेरुम्बुदुर | कलक्टर, चेंगलपट्टु, चेंगलपट्टु |
| 6-कांचीपुरम (अ.जा.) | कलक्टर, कांचीपुरम, कांचीपुरम |
| 7-अराक्कोनम | कलक्टर, रानीपेट, रानीपेट |
| 8-वेल्लोर | कलक्टर, वेल्लोर, वेल्लोर |

| | |
|------------------------|--|
| 9-कृष्णागिरी | कलक्टर, कृष्णागिरी, कृष्णागिरी |
| 10-धर्मापुरी | कलक्टर, धर्मापुरी, धर्मापुरी |
| 11-तिरुवन्नामलाई | कलक्टर, तिरुवन्नामलाई, तिरुवन्नामलाई |
| 12-अरानी | जिला राजस्व अधिकारी, तिरुवन्नामलाई |
| 13-विलुप्पुरम (अ.जा.) | कलक्टर, विलुप्पुरम, विलुप्पुरम |
| 14-कल्लाकुरिची | कलक्टर, कल्लाकुरिची, कल्लाकुरिची |
| 15-सलेम | कलक्टर, सलेम, सलेम |
| 16-नामाक्कल | कलक्टर, नामाक्कल, नामाक्कल |
| 17-इरोड | कलक्टर, इरोड, इरोड |
| 18-तिरुप्पुर | कलक्टर, तिरुप्पुर, तिरुप्पुर |
| 19-नीलगिरि (अ.जा.) | कलक्टर, नीलगिरि, उधागामंडलम |
| 20-कोयम्बटूर | कलक्टर, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर |
| 21-पोल्लाची | अपरकलक्टर/जिला राजस्व अधिकारी, कोयम्बटूर |
| 22-डिण्डीगुल | कलक्टर, डिण्डीगुल, डिण्डीगुल |
| 23-करूर | कलक्टर, करूर, करूर |
| 24-तिरुचिरापल्ली | कलक्टर, तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली |
| 25-पेरम्बलुर | कलक्टर, पेरम्बलुर, पेरम्बलुर |
| 26-कुड्डालोर | कलक्टर, कुड्डालोर, कुड्डालोर |
| 27-चिदम्बरम (अ.जा.) | कलक्टर, अरियालुर, अरियालुर |
| 28-मइलादुथुरई | कलक्टर, मइलादुथुरई, मइलादुथुरई |
| 29-नागापट्टिनम (अ.जा.) | कलक्टर, नागापट्टिनम, नागापट्टिनम |
| 30-थन्जावुर | कलक्टर, थन्जावुर, थन्जावुर |
| 31-शिवगंगा | कलक्टर, शिवगंगा, शिवगंगा |
| 32-मदुरई | कलक्टर, मदुरई, मदुरई |
| 33-थेनी | कलक्टर, थेनी, थेनी |
| 34-विरुधुनगर | कलक्टर, विरुधुनगर, विरुधुनगर |
| 35-रामानाथपुरम | कलक्टर, रामानाथपुरम, रामानाथपुरम |
| 36-थूथुक्कुडी | कलक्टर, थूथुक्कुडी, थूथुक्कुडी |
| 37-टेनकासी (अ.जा.) | कलक्टर, टेनकासी, टेनकासी |
| 38-तिरुनेलवेली | कलक्टर, तिरुनेलवेली, तिरुनेलवेली |
| 39-कन्याकुमारी | कलक्टर, कन्याकुमारी, नागरकोईल |

आदेश से,

[फा. सं. 434/टीएन-एचपी/2023(1)]

मलय मल्लिक, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th November, 2023

O.N. 69(E).—In pursuance of the provisions contained in section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its earlier notification No. 434/TN-HP/2019 (1) dated 04-02-2019 as amended from time to time, the Election Commission of India here by designates, in consultation with the State Government of Tamil Nadu, the officers of Government specified in column (2) of the Table below, as the Returning Officers of the Parliamentary Constituencies in the Tamil Nadu State, as specified in column (1) of the said Table against such officer.

TABLE

| No. and Name of the Parliamentary Constituency | Returning Officer |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1-TIRUVALLUR (SC) | Collector of Tiruvallur, Tiruvallur. |
| 2-CHENNAI NORTH | Regional Additional / Joint / Deputy Commissioner, North Region, Greater Chennai Corporation. |
| 3-CHENNAI SOUTH | Regional Additional / Joint / Deputy Commissioner, South Region, Greater Chennai Corporation. |
| 4-CHENNAI CENTRAL | Regional Additional / Joint / Deputy Commissioner, Central Region, Greater Chennai Corporation. |
| 5-SRIPERUMBUDUR | Collector of Chengalpattu, Chengalpattu. |
| 6-KANCHEEPURAM (SC) | Collector of Kancheepuram, Kancheepuram. |
| 7-ARAKKONAM | Collector of Ranipet, Ranipet. |
| 8-VELLORE | Collector of Vellore, Vellore. |
| 9-KRISHNAGIRI | Collector of Krishnagiri, Krishnagiri. |
| 10-DHARMAPURI | Collector of Dharmapuri, Dharmapuri. |
| 11-TIRUVANNAMALAI | Collector of Tiruvannamalai, Tiruvannamalai. |
| 12-ARANI | District Revenue Officer, Tiruvannamalai. |
| 13-VILUPPURAM (SC) | Collector of Viluppuram, Viluppuram. |
| 14- KALLAKURICHI | Collector of Kallakurichi, Kallakurichi. |
| 15-SALEM | Collector of Salem, Salem. |
| 16-NAMAKKAL | Collector of Namakkal, Namakkal. |
| 17-ERODE | Collector of Erode, Erode. |
| 18-TIRUPPUR | Collector of Tiruppur, Tiruppur. |
| 19- NILGIRIS (SC) | Collector of The Nilgiris, Udhamandalam. |
| 20-COIMBATORE | Collector of Coimbatore, Coimbatore. |
| 21-POLLACHI | Additional Collector / District Revenue Officer, Coimbatore. |
| 22-DINDIGUL | Collector of Dindigul, Dindigul. |
| 23-KARUR | Collector of Karur, Karur. |
| 24-TIRUCHIRAPPALLI | Collector of Tiruchirappalli, Tiruchirappalli. |
| 25-PERAMBALUR | Collector of Perambalur, Perambalur. |
| 26-CUDDALORE | Collector of Cuddalore, Cuddalore. |
| 27-CHIDAMBARAM (SC) | Collector of Ariyalur, Ariyalur. |
| 28-MAYILADUTHURAI | Collector of Mayiladuthurai, Mayiladuthurai. |
| 29-NAGAPATTINAM (SC) | Collector of Nagapattinam, Nagapattinam. |
| 30- THANJAVUR | Collector of Thanjavur, Thanjavur. |
| 31-SIVAGANGA | Collector of Sivaganga, Sivaganga. |
| 32-MADURAI | Collector of Madurai, Madurai. |
| 33-THENI | Collector of Theni, Theni. |
| 34-VIRUDHUNAGAR | Collector of Virudhunagar, Virudhunagar. |

| | |
|-------------------|--|
| 35-RAMANATHAPURAM | Collector of Ramanathapuram, Ramanathapuram. |
| 36-THOOTHUKUDI | Collector of Thoothukudi, Thoothukudi. |
| 37-TENKASI (SC) | Collector of Tenkasi, Tenkasi. |
| 38-TIRUNELVELI | Collector of Tirunelveli, Tirunelveli. |
| 39-KANNIYAKUMARI | Collector of Kanniyakumari, Nagercoil. |

[F. No. 434/TN-HP/2023 (1)]

By Order,

MALAY MALLICK, Principal Secy.

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2023

आ.अ. 70(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अपनी पूर्ववर्ती अधिसूचना सं.434/टीएन-एचपी/2023 (2), दिनांक 4 फरवरी, 2019, समय-समय पर यथासंशोधित, के अधिक्रमण में, भारत निर्वाचन आयोग, तमिलनाडु राज्य सरकार के परामर्श से, एतद्वारा, नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी अधिकारियों को, तमिलनाडु राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जैसा कि उक्त तालिका के स्तंभ (1) में ऐसे अधिकारी के सामने विनिर्दिष्ट है, के संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को सहायता करने के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के रूप में नामोद्दिष्ट करता है।

तालिका

| संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का सं. एवं नाम | सहायक रिटर्निंग अधिकारी |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1-तिरुवल्लुर (अ.जा.) | <ol style="list-style-type: none"> विशेष उप कलक्टर (सामाजिक सुरक्षा योजना), तिरुवल्लुर उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, पोन्नैरी जिला पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, तिरुवल्लुर उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, तिरुवल्लुर आयुक्त, अवाडी निगम, अवाडी जिला आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, तिरुवल्लुर तहसीलदार; गुम्मिडिपून्डी तहसीलदार, पोन्नैरी तहसीलदार; तिरुवल्लुर तहसीलदार, पूनामल्लै तहसीलदार, अवाडी तहसीलदार, मादावरम |
| 2-चेन्नई उत्तर | <ol style="list-style-type: none"> जोनल अधिकारी, जोन-1 (तिरुवोट्टीयुर) ग्रेटर चेन्नई निगम, सं. 947, तिरुवोट्टीयुर हाई रोड, चेन्नई-19 संयुक्त निदेशक, निदेशालय/कमीशनरेट आदि-द्रविड एवं जनजातीय कल्याण, चेपौक चेन्नई-5 जिला राजस्व अधिकारी, 62, राजाजी सलाई, सिंगरावेलर मलीगाई, चेन्नई कलक्टरी, चेन्नई-1 संयुक्त आयुक्त-1, निषेध एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, चेपौक, चेन्नई-5 महाप्रबंधक, तमिलनाडु चीनी निगम लिमिटेड, चेन्नई-35 महाप्रबंधक, तमिलनाडु लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड (टीएनएसआईडीसीओ), चेन्नई-32 तहसीलदार, तिरुवोट्टीयुर, तिरुवोट्टीयुर हाई रोड, चेन्नई विशेष तहसीलदार (भूमि और संपदा), ग्रेटर चेन्नई निगम, चेन्नई-3 तालुक उत्पाद शुल्क अधिकारी, पेराम्बुर हाई रोड, पेराम्बुर चेन्नई-11 |

| | | |
|-------------------|-----|--|
| | 10. | तहसीलदार, पेराम्बुर, पेराम्बुर हाई रोड, रेलवे स्टेशन के सामने, चेन्नई-11 |
| | 11. | विशेष तहसीलदार (स्टाम्प-I), जिला राजस्व अधिकारी का कार्यालय (स्टाम्प), चेन्नई कलकटरी, चेन्नई-1 |
| | 12. | तहसीलदार, पुरासावलकम, नेहरू स्टेडियम के नजदीक, राजा मुथैया रोड, चेन्नई-3 |
| 3-चेन्नई दक्षिण | 1. | वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, तमिलनाडु राज्य विपणन निगम लि. (टीएएसएमएसी), माउंट रोड, चेन्नई |
| | 2. | सचिव, तमिलनाडु स्लम क्लीयरेंस बोर्ड, कामराजार सलाई, चेन्नई |
| | 3. | जिला राजस्व अधिकारी (भूमि एवं संपदा), ग्रेटर चेन्नई निगम, चेन्नई-3 |
| | 4. | महाप्रबंधक, वुमन लिमिटेड विकास के लिए तमिलनाडु का निगम, चेन्नई-34 |
| | 5. | संयुक्त निदेशक (आपदा प्रबंधन), तमिलनाडु आपदा जोखिम न्यूनीकरण एजेंसी, एजीलागम, चेन्नई-5 |
| | 6. | सहायक आयुक्त (उत्पाद शुल्क), चेंगलपट्टु |
| | 7. | तहसीलदार (आपदा प्रबंधन), तमिलनाडु आपदा जोखिम न्यूनीकरण एजेंसी, चेन्नई कलकटरी, सिंगरावेलर मलीगाई, चेन्नई-1 |
| | 8. | विशेष तहसीलदार (यूएलटी), तहसीलदार का कार्यालय, माम्बलम, चेन्नई-78 |
| | 9. | तहसीलदार, माम्बलम, चेन्नई-78 |
| | 10. | तहसीलदार, माइलापोर, चेन्नई-28 |
| | 11. | विशेष तहसीलदार (यूएलटी), तहसीलदार का कार्यालय, माइलापोर, चेन्नई-28 |
| | 12. | तहसीलदार, शोल्लिंगानल्लुर, पुराना महाबलीपुरम रोड चेन्नई-114 |
| 4- चेन्नई सेंट्रल | 1. | महाप्रबंधक/जिला राजस्व अधिकारी, तमिलनाडु लिमिटेड का राज्य उद्योग संवर्धन निगम, एगमोर, चेन्नई-8 |
| | 2. | बंदोबस्त अधिकारी, सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त निदेशक/आयुक्तका कार्यालय, चेन्नई-5 |
| | 3. | चिकित्सा एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा (प्रशासन) का अपर निदेशक, चिकित्सा एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, चेन्नई-6 |
| | 4. | महाप्रबंधक (विपणन), तमिलनाडु सीमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई |
| | 5. | महाप्रबंधक, तमिलनाडु मेडिसिनल प्लांट फार्मर्स एंड हर्बल मेडिसिन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएएमपीसीओएल), चेन्नई-106 |
| | 6. | महाप्रबंधक (प्रशासन), तमिलनाडु अरासु केबल टीवी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई |
| | 7. | विशेष तहसीलदार (भूमि अधिग्रहण और प्रबंधन), राजमार्ग, तिरुवोट्टीयुर यूनिट, सिंगरावेलर मालीगाई, राजाजी सलाई, चेन्नई कलकटरी, चेन्नई-1 |
| | 8. | हुजूर सरिश्ताधर (यूएलटी), कलकटरी, चेन्नई-1 |
| | 9. | विशेष तहसीलदार (यूएलटी), पुरसावलकम, चेन्नई-3 |
| | 10. | तालुक उत्पाद शुल्क अधिकारी, मायलापुर, चेन्नई-28 |
| | 11. | तालुक उत्पाद शुल्क अधिकारी, तहसीलदार का कार्यालय, एगमोर, स्पुरटैंक रोड, चेन्नई-31 |
| | 12. | तहसीलदार, एगमोर, स्पुरटैंक रोड, चेटपुट, चेन्नई-31 |
| 5-श्रीपेरुम्बुडुर | 1. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, सेंट्रल चेन्नई डिवीजन |
| | 2. | सहायक आयुक्त और जोनल ऑफिसर VII, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन |
| | 3. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, श्रीपेरुम्बुडुर |
| | 4. | सहायक आयुक्त और जोनल ऑफिसर XII, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन |
| | 5. | अपर निजी सहायक (भूमि) के कलक्टर चेंगलपट्टु |
| | 6. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, तामवरम |

| | | |
|---------------------|-----|---|
| | 7. | तहसीलदार, कुंदाथुर |
| | 8. | तहसीलदार, अम्बाट्टुर |
| | 9. | तहसीलदार, अलान्दुर |
| | 10. | तहसीलदार, श्रीपेरुम्बुडुर |
| | 11. | तहसीलदार, पल्लारम |
| | 12. | तहसीलदार, तामबरम |
| 6-कांचीपुरम (अ.जा.) | 1. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, चेंगलपट्टु |
| | 2. | जिला पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, चेंगलपट्टु |
| | 3. | जिला आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, चेंगलपट्टु |
| | 4. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, मदुरांटकम |
| | 5. | जिला आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, कांचीपुरम |
| | 6. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, कांचीपुरम |
| | 7. | तहसीलदार, चेंगलपट्टु |
| | 8. | तहसीलदार, तिरुपेरूर |
| | 9. | तहसीलदार, चेर्यूर |
| | 10. | तहसीलदार, मदुरांटकम |
| | 11. | तहसीलदार, उथिरामेरूर |
| | 12. | तहसीलदार, कांचीपुरम |
| 7-अराकोन्नम | 1. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, तिरुट्टानी |
| | 2. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, अराकोन्नम |
| | 3. | सहायक आयुक्त (उत्पाद शुल्क), रानीपेट |
| | 4. | विशेष उप कलक्टर (सामाजिक सुरक्षा योजना), वेल्लोर |
| | 5. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, रानीपेट |
| | 6. | जिला आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, रानीपेट |
| | 7. | तहसीलदार, तिरुट्टानी |
| | 8. | तहसीलदार, अराकोन्नम |
| | 9. | तहसीलदार, नेमिली |
| | 10. | तहसीलदार, कटपाडी |
| | 11. | तहसीलदार, वलाजाह |
| | 12. | तहसीलदार, अर्काट |
| 8-वेल्लोर | 1. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, वेल्लोर |
| | 2. | सहायक आयुक्त (उत्पाद शुल्क), वेल्लोर |
| | 3. | जिला आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, वेल्लोर |
| | 4. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, गुडियाट्टम |
| | 5. | उप कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, वनियमबाडी |
| | 6. | विशेष उप कलक्टर (सामाजिक सुरक्षा योजना), तिरुपाथुर |
| | 7. | तहसीलदार, वेल्लोर |
| | 8. | तहसीलदार, अनाईकट्टु |
| | 9. | तहसीलदार, के.वी. कुटपम |
| | 10. | तहसीलदार, गुडियाट्टम |
| | 11. | तहसीलदार, वनियमबाडी |
| | 12. | तहसीलदार, अम्बुर |
| 9-कृष्णागिरि | 1. | जिला आदि-द्रविड़ और जनजातीय कल्याण अधिकारी, कृष्णागिरि |
| | 2. | विशेष उप कलक्टर (सामाजिक सुरक्षा योजना), कृष्णागिरि |
| | 3. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, कृष्णागिरि |
| | 4. | जिला आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, कृष्णागिरि |

| | | |
|------------------|-----|--|
| | 5. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, होसुर |
| | 6. | सहायक आयुक्त उत्पाद शुल्क, कृष्णागिरि |
| | 7. | तहसीलदार, उथानगरई |
| | 8. | तहसीलदार, बारगुर |
| | 9. | तहसीलदार, कृष्णागिरि |
| | 10. | तहसीलदार, सुलागिरि |
| | 11. | तहसीलदार, होसुर |
| | 12. | तहसीलदार, देंकनीकोट्टाई |
| 10-धर्मापुरी | 1. | विशेष उप कलक्टर (सामाजिक सुरक्षा योजना), धर्मापुरी |
| | 2. | सहायक आयुक्त (उत्पाद शुल्क), धर्मापुरी |
| | 3. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, धर्मापुरी |
| | 4. | अपर निजी सहायक के कलक्टर (भूमि), धर्मापुरी |
| | 5. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, हरूर |
| | 6. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, मेट्टुर |
| | 7. | तहसीलदार, पालाकोडु |
| | 8. | तहसीलदार, पेन्नागारम |
| | 9. | तहसीलदार, धर्मापुरी |
| | 10. | तहसीलदार, पाप्पिरेडुपट्टी |
| | 11. | तहसीलदार, हरूर |
| | 12. | तहसीलदार, मेट्टुर |
| 11-तिरुवन्नामलाई | 1. | अपर निजी सहायक (भूमि) के कलक्टर, तिरुपाथुर |
| | 2. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, तिरुपाथुर |
| | 3. | विशेष उप-कलक्टर (सामाजिक सुरक्षा योजना), तिरुवन्नामलाई |
| | 4. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, तिरुवन्नामलाई |
| | 5. | सहायक आयुक्त (उत्पाद शुल्क), तिरुवन्नामलाई |
| | 6. | जिला आदि-द्रविड और जनजातीय कल्याण अधिकारी, तिरुवन्नामलाई |
| | 7. | तहसीलदार, नट्टरम्पल्ली |
| | 8. | तहसीलदार, तिरुपाथुर |
| | 9. | विशेष तहसीलदार (सामाजिक सुरक्षा योजना), चेंगम |
| | 10. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी के निजी सहायक, तिरुवन्नामलाई |
| | 11. | विशेष तहसीलदार (सामाजिक सुरक्षा योजना), किलपेन्नाथुर |
| | 12. | विशेष तहसीलदार (सामाजिक सुरक्षा योजना), कलसापक्कम |
| 12-अरानी | 1. | जिला आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, तिरुवन्नामलाई |
| | 2. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, अरानी |
| | 3. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, चेय्यर |
| | 4. | जिला पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, तिरुवन्नामलाई |
| | 5. | जिला आदि-द्रविड और जनजातीय कल्याण अधिकारी, विलुपुरम |
| | 6. | विशेष उप-कलक्टर (सामाजिक सुरक्षा योजना), विलुपुरम |
| | 7. | विशेष तहसीलदार (सामाजिक सुरक्षा योजना), पोलुर |
| | 8. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी के निजी सहायक, अरानी |
| | 9. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी के निजी सहायक, चेय्यर |
| | 10. | विशेष तहसीलदार (सामाजिक सुरक्षा योजना), वंडावासी |
| | 11. | विशेष तहसीलदार (आदि-द्रविड कल्याण), गिन्नी |

| | | |
|----------------------|-----|---|
| | 12. | विशेष तहसीलदार (स्टाम्प) टिन्डीवानम |
| 13-विलुपुरम् (अ.जा.) | 1. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, टिन्डीवानम |
| | 2. | सहायक आयुक्त (उत्पाद शुल्क), विलुपुरम् |
| | 3. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, विलुपुरम् |
| | 4. | जिला आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, विलुपुरम् |
| | 5. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, थिरुक्कोइलुर |
| | 6. | सहायक आयुक्त (उत्पाद शुल्क), कल्लाकुरिची |
| | 7. | विशेष तहसीलदार (सामाजिक सुरक्षा योजना), टिन्डीवानम |
| | 8. | विशेष तहसीलदार (सामाजिक सुरक्षा योजना), वानूर |
| | 9. | विशेष तहसीलदार (सामाजिक सुरक्षा योजना), विलुपुरम् |
| | 10. | विशेष तहसीलदार (सिविल आपूर्ति), विलुपुरम् |
| | 11. | विशेष तहसीलदार (सामाजिक सुरक्षा योजना), थिरुक्कोइलुर |
| 14-कल्लाकुरिची | 12. | विशेष तहसीलदार (सामाजिक सुरक्षा योजना), उलुंडुरपेट्टै |
| | 1. | विशेष उप-कलक्टर (सामाजिक सुरक्षा योजना) कल्लाकुरिची |
| | 2. | जिला पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कल्लाकुरिची |
| | 3. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, कल्लाकुरिची |
| | 4. | जिला आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, सलेम |
| | 5. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, अट्टुर |
| | 6. | विशेष उप-कलक्टर (स्टाम्प), सलेम |
| | 7. | विशेष तहसीलदार (सामाजिक सुरक्षा योजना), वनपुरम् |
| | 8. | विशेष तहसीलदार (सामाजिक सुरक्षा योजना), सन्कारापुरम् |
| | 9. | विशेष तहसीलदार (सामाजिक सुरक्षा योजना), कल्लाकुरिची |
| | 10. | तहसीलदार, गंगावल्ली |
| | 11. | तहसीलदार, अट्टुर |
| | 12. | तहसीलदार, वाझापपाडी |
| 15-सलेम | 1. | अपर निजी सहायक (भूमि) के कलक्टर, सलेम |
| | 2. | सहायक आयुक्त (उत्पाद शुल्क), सलेम |
| | 3. | विशेष उप-कलक्टर (सामाजिक सुरक्षा योजना), सलेम |
| | 4. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, सलेम |
| | 5. | आयुक्त, सलेम सिटी नगर निगम, सलेम |
| | 6. | जिला पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सलेम |
| | 7. | तहसीलदार, ओमालुर |
| | 8. | तहसीलदार, इडाप्पाडी |
| | 9. | तहसीलदार, सलेम (पश्चिम) |
| | 10. | तहसीलदार, सलेम |
| | 11. | सहायक आयुक्त, कौंडलमपट्टी वार्ड, जोन-IV, सलेम सिटी नगर निगम, सलेम |
| | 12. | तहसीलदार, सलेम दक्षिण |
| 16-नामाक्कल | 1. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, संकारी |
| | 2. | जिला आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, नामाक्कल |
| | 3. | विशेष उप कलक्टर (सामाजिक सुरक्षा योजना), नामाक्कल |
| | 4. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, नामाक्कल |
| | 5. | जिला पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, नामाक्कल |
| | 6. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, तिरुचेंगोडु |
| | 7. | तहसीलदार, संकारी |
| | 8. | तहसीलदार, रसिपुरम् |
| | 9. | तहसीलदार, सेंथामंगलम |

| | | |
|--------------------|-----|--|
| | 10. | तहसीलदार, नामाक्कल |
| | 11. | तहसीलदार, पारामाथी-वेलुर |
| | 12. | तहसीलदार, तिरुचेंगोडु |
| 17-इरोड | 1. | जिला आदि-द्रविड कल्याण अधिकारी, नामाक्कल |
| | 2. | आयुक्त, इरोड सिटी नगर निगम, इरोड |
| | 3. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, इरोड |
| | 4. | सहायक आयुक्त (उत्पाद शुल्क), इरोड |
| | 5. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, धारापुरम |
| | 6. | सहायक आयुक्त (उत्पाद शुल्क), तिरुप्पुर |
| | 7. | तहसीलदार, कुमारपालयम |
| | 8. | विशेष तहसीलदार (सामाजिक सुरक्षा योजना), इरोड |
| | 9. | तहसीलदार, इरोड |
| | 10. | तहसीलदार, मोडाक्कुरिची |
| | 11. | तहसीलदार, धारापुरम |
| | 12. | तहसीलदार, कानगायम |
| 18-तिरुप्पुर | 1. | जिला आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, इरोड |
| | 2. | जिला आदि-द्रविड और जनजातीय कल्याण अधिकारी, इरोड |
| | 3. | जिला पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, इरोड |
| | 4. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, गोबिचेट्टिपालयम |
| | 5. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, तिरुप्पुर |
| | 6. | आयुक्त, तिरुप्पुर सिटी नगर निगम, तिरुप्पुर |
| | 7. | तहसीलदार, पेरुन्दुराई |
| | 8. | तहसीलदार, भवानी |
| | 9. | तहसीलदार, अंथियुर |
| | 10. | तहसीलदार, गोबिचेट्टिपालयम |
| | 11. | तहसीलदार, तिरुप्पुर (उत्तर) |
| | 12. | सहायक आयुक्त (जोन III), तिरुप्पुर सिटी नगर निगम, तिरुप्पुर |
| 19-नीलगिरि (अ.जा.) | 1. | सहायक निदेशक (पंचायत), इरोड |
| | 2. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, उधागामंडलम |
| | 3. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, गुडालुर |
| | 4. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, कूनूर |
| | 5. | जिला आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, कोयम्बटूर |
| | 6. | जिला पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, तिरुप्पुर |
| | 7. | तहसीलदार, सथ्यमंगलम |
| | 8. | तहसीलदार, उधागामंडलम |
| | 9. | तहसीलदार, गुडालुर |
| | 10. | तहसीलदार, कूनूर |
| | 11. | तहसीलदार, मेट्टुप्पालयम |
| | 12. | तहसीलदार, अवनाथी |
| 20-कोयम्बटूर | 1. | जिला आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, तिरुप्पुर |
| | 2. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, कोयम्बटूर उत्तर |
| | 3. | सहायक आयुक्त (शहरी भूमि कर), कोयम्बटूर |
| | 4. | विशेष उप कलक्टर (सामाजिक सुरक्षा योजना), कोयम्बटूर |
| | 5. | उपायुक्त, कोयम्बटूर सिटी नगर निगम, कोयम्बटूर |
| | 6. | जिला आदि-द्रविड एवं जनजातीय कल्याण अधिकारी, कोयम्बटूर |
| | 7. | तहसीलदार, पल्लाडम |

| | | |
|------------------|-----|---|
| | 8. | तहसीलदार, सुलूर |
| | 9. | तहसीलदार, कोयम्बटूर उत्तर |
| | 10. | तहसीलदार, कोयम्बटूर (दक्षिण) |
| | 11. | सहायक आयुक्त (सेंट्रल), कोयम्बटूर सिटी नगर निगम, कोयम्बटूर |
| | 12. | विशेष तहसीलदार (सिविल आपूर्ति), कोयम्बटूर उत्तर |
| 21-पोल्लाची | 1. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, कोयम्बटूर |
| | 2. | जिला पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कोयम्बटूर |
| | 3. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, पोल्लाची |
| | 4. | जिला निरीक्षण कक्ष अधिकारी, कोयम्बटूर |
| | 5. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, उडुमलाईपेट्टाई |
| | 6. | जिला आदि-द्रविड और जनजातीय कल्याण अधिकारी, तिरुप्पुर |
| | 7. | तहसीलदार, मडुक्कराई |
| | 8. | तहसीलदार, पेरूर |
| | 9. | तहसीलदार, पोल्लाची |
| | 10. | तहसीलदार, बालपरई |
| | 11. | तहसीलदार, उडुमलाईपेट्टाई |
| | 12. | तहसीलदार, मदाथुकुलम |
| 22-डिण्डीगुल | 1. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, पालानी |
| | 2. | सहायक आयुक्त (उत्पाद-शुल्क), डिण्डीगुल |
| | 3. | विशेष उप कलक्टर (सामाजिक सुरक्षा योजना), डिण्डीगुल |
| | 4. | जिला पिछडा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, डिण्डीगुल |
| | 5. | जिला आदि-द्रविड और जनजातीय कल्याण अधिकारी, डिण्डीगुल |
| | 6. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, डिण्डीगुल |
| | 7. | तहसीलदार, पालानी |
| | 8. | तहसीलदार, ओड्डानचात्रम |
| | 9. | तहसीलदार, अट्टूर |
| | 10. | तहसीलदार, निलाकोट्टई |
| | 11. | तहसीलदार, नाथम |
| | 12. | तहसीलदार, डिण्डीगुल (पश्चिम) |
| 23-करूर | 1. | जिला आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, डिण्डीगुल |
| | 2. | सहायक आयुक्त (उत्पाद शुल्क), करूर |
| | 3. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, करूर |
| | 4. | जिला आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, करूर |
| | 5. | जिला पिछडा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, तिरुचिरापल्ली |
| | 6. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, इल्लुप्पुर |
| | 7. | तहसीलदार, वेडासंडूर |
| | 8. | तहसीलदार, अरावाकुरिची |
| | 9. | तहसीलदार, करूर |
| | 10. | तहसीलदार, कृष्णारायपुरम |
| | 11. | तहसीलदार, मानाप्परई |
| | 12. | तहसीलदार, इल्लुप्पुर |
| 24-तिरुचिरापल्ली | 1. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, श्रीरंगम |
| | 2. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, तिरुचिरापल्ली |
| | 3. | सहायक आयुक्त, अरियामंगलम जोन सिटी कॉर्पोरेशन, तिरुचिरापल्ली |
| | 4. | जिला आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, तिरुचिरापल्ली |
| | 5. | जिला आदि-द्रविड और जनजातीय कल्याण अधिकारी, पुडुकोट्टाई |

| | | |
|---------------------|-----|--|
| | 6. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, पुदुक्कोट्टाई |
| | 7. | तहसीलदार, श्रीरंगम |
| | 8. | तहसीलदार, तिरुचिरापल्ली (पश्चिम) |
| | 9. | तहसीलदार, तिरुचिरापल्ली (पूर्व) |
| | 10. | तहसीलदार, तिरुवेरमबुर |
| | 11. | तहसीलदार, गंडरबाकोट्टाई |
| | 12. | तहसीलदार, पुदुक्कोट्टाई |
| 25-पेरम्बलूर | 1. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, कुलीथलाई |
| | 2. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, लालगुडी |
| | 3. | सहायक आयुक्त (उत्पाद शुल्क), तिरुचिरापल्ली |
| | 4. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, मुसिरी |
| | 5. | विशेष उप कलक्टर (स्टाम्प), तिरुचिरापल्ली |
| | 6. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, पेरम्बलूर |
| | 7. | तहसीलदार, कुलीथलाई |
| | 8. | तहसीलदार, लालगुडी |
| | 9. | तहसीलदार, मनचनल्लूर |
| | 10. | तहसीलदार, तोत्तीयम |
| | 11. | तहसीलदार, तुराईयुर |
| | 12. | तहसीलदार, पेरम्बलूर |
| 26-कुड्डालोर | 1. | जिला पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कुड्डालोर |
| | 2. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, विरूधचालम |
| | 3. | विशेष उप कलक्टर (भूमि अधिग्रहण), नेईवेली |
| | 4. | जिला आदि-द्रविड और जनजातीय कल्याण अधिकारी, कुड्डालोर |
| | 5. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, कुड्डालोर |
| | 6. | विशेष उप-कलक्टर (स्टाम्प), कुड्डालोर |
| | 7. | तहसीलदार, टिट्टाकुडी |
| | 8. | तहसीलदार, विरूधचालम |
| | 9. | विशेष तहसीलदार (भूमि अधिग्रहण), सं. XV, नेईवेली |
| | 10. | तहसीलदार, पनरूटी |
| | 11. | तहसीलदार, कुड्डालोर |
| | 12. | तहसीलदार, कुरिनजीपडी |
| 27-चिदम्बरम (अ.जा.) | 1. | जिला आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, पेरम्बूर |
| | 2. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, अरियालूर |
| | 3. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, उच्चरपालयम |
| | 4. | जिला आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, कुड्डालोर |
| | 5. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, चिदम्बरम |
| | 6. | सहायक आयुक्त (उत्पाद शुल्क), कुड्डालोर |
| | 7. | तहसीलदार, कुन्नम |
| | 8. | तहसीलदार, अरियापुर |
| | 9. | तहसीलदार, जयनकोनडम में उदयारपालयम |
| | 10. | तहसीलदार, भुवनगिरि |
| | 11. | तहसीलदार, चिदम्बरम |
| | 12. | तहसीलदार, कट्टुमन्नरकोईल |
| 28-मईलादुथुराई | 1. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, सिरकाझी |
| | 2. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, मईलादुथूराई |
| | 3. | विशेष उप-कलक्टर (सामाजिक सुरक्षा योजना), मईलादुथूराई |

| | | |
|------------------------|-----|--|
| | 4. | जिला आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, तंजावुर |
| | 5. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, कुंवाकोनम |
| | 6. | जिला आदि-द्रविड और जनजातीय कल्याण अधिकारी, तंजावुर |
| | 7. | तहसीलदार, सिरकाजी |
| | 8. | तहसीलदार, मईलादुथुराई |
| | 9. | तहसीलदार, थरंगमबडी |
| | 10. | तहसीलदार, थिरुविडाईमरुथुर |
| | 11. | तहसीलदार, कुंवाकोनम |
| | 12. | तहसीलदार, पापनसम |
| 29-नागापट्टिनम (अ.जा.) | 1. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, नागापट्टिनम |
| | 2. | जिला आदि-द्रविड और जनजातीय कल्याण अधिकारी, नागापट्टिनम |
| | 3. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, वेदरनायम |
| | 4. | जिला आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, तिरुवरूर |
| | 5. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, तिरुवरूर |
| | 6. | सहायक आयुक्त (उत्पाद शुल्क), तिरुवरूर |
| | 7. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी के निजी सहायक, नागापट्टिनम |
| | 8. | विशेष तहसीलदार (सामाजिक सुरक्षा योजना), किलवेलुर |
| | 9. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी के निजी सहायक, वेदरगायम |
| | 10. | तालुक आपूर्ति अधिकारी, तिरुथुराईपुन्नदी |
| | 11. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी के निजी सहायक |
| | 12. | तहसीलदार, कोडवासल |
| 30-थन्जावुर | 1. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, मन्नरगुडी |
| | 2. | सहायक आयुक्त (उत्पाद शुल्क), थन्जावुर |
| | 3. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, थन्जावुर |
| | 4. | जिला पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, थन्जावुर |
| | 5. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, पट्टुक्कोट्टाई |
| | 6. | विशेष उप कलक्टर (स्टाम्प), थन्जावुर |
| | 7. | तहसीलदार, मन्नरगुडी |
| | 8. | तहसीलदार, थिरुबैथारू |
| | 9. | तहसीलदार, थन्जावुर |
| | 10. | तहसीलदार, ओरथानाडु |
| | 11. | तहसीलदार, पट्टुक्कोट्टाई |
| | 12. | तहसीलदार, पेरावुरानी |
| 31-शिवगंगा | 1. | सहायक आयुक्त (उत्पाद शुल्क), पुडुक्कोट्टाई |
| | 2. | जिला आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, पुडुक्कोट्टाई |
| | 3. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, देवकोट्टाई |
| | 4. | अपर निजी सहायक कलक्टर (भूमि), शिवगंगा |
| | 5. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, शिवगंगा |
| | 6. | जिला पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, शिवगंगा |
| | 7. | तहसीलदार, थिरुमायम |
| | 8. | तहसीलदार, अलनगुडी |
| | 9. | तहसीलदार, कराईकुडी |
| | 10. | तहसीलदार, तिरुप्पाथुर |
| | 11. | तहसीलदार, शिवगंगा |

| | | |
|----------------|-----|---|
| | 12. | तहसीलदार, मनमथुराई |
| 32-मदुरई | 1. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, मेलुर |
| | 2. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, मदुरई |
| | 3. | जिला प्रबंधक, तमिलनाडु राज्य विपणन निगम लिमिटेड (टीएसएमएसी), मदुरई दक्षिण |
| | 4. | सहायक आयुक्त, मदुरई निगम, जोन-4 |
| | 5. | विशेष उप कलक्टर (राजस्व न्यायालय), मदुरई |
| | 6. | सहायक आयुक्त (उत्पाद शुल्क), मदुरई |
| | 7. | सहायक निदेशक (पंचायत), मदुरई |
| | 8. | विशेष उप कलक्टर (सामाजिक सुरक्षा योजना), मदुरई |
| | 9. | सहायक आयुक्त (यूएलटी), मदुरई |
| | 10. | निरीक्षण कक्ष अधिकारी, मदुरई |
| | 11. | विशेष उप कलक्टर (स्टाम्प), मदुरई |
| | 12. | सहायक निदेशक (लेखापरीक्षा), ग्रामीण विकास, मदुरई |
| 33-थेनी | 1. | जिला पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मदुरई |
| | 2. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, उसीलमपट्टी |
| | 3. | सहायक आयुक्त (उत्पाद शुल्क), थेनी |
| | 4. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, पेरियाकुलम |
| | 5. | जिला आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, थेनी |
| | 6. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, उथमपालयम |
| | 7. | तहसीलदार, वडिपट्टी |
| | 8. | तहसीलदार, उसीलमपट्टी |
| | 9. | तहसीलदार, अंदीपट्टी |
| | 10. | तहसीलदार, पेरियाकुलम |
| | 11. | तहसीलदार, बोडिनायकानुर |
| | 12. | तहसीलदार, उथमपालयम |
| 34-विरूधनगर | 1. | जिला आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, मदुरई |
| | 2. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, थिरुमंगलम |
| | 3. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, सत्तूर |
| | 4. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, सिक्कासी |
| | 5. | जिला पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, विरूधनगर |
| | 6. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, अरूधुकोट्टी |
| | 7. | नगर पंचायत के सहायक निदेशक, मदुरई |
| | 8. | जिला आदि-द्रविड़ और जनजातीय कल्याण अधिकारी, मदुरई |
| | 9. | तहसीलदार, सत्तूर |
| | 10. | तहसीलदार, सिक्कासी |
| | 11. | तहसीलदार, विरूधनगर |
| | 12. | तहसीलदार, अरूधुकोट्टी |
| 35-रामानाथपुरम | 1. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, अरनथांगी |
| | 2. | जिला आदि-द्रविड़ और जनजातीय कल्याण अधिकारी, विरूधनगर |
| | 3. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, परमाकुडी |
| | 4. | जिला आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, रामानाथपुरम |
| | 5. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, रामानाथपुरम |
| | 6. | जिला पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, रामानाथपुरम |
| | 7. | तहसीलदार, अरनथांगी |
| | 8. | तहसीलदार, तिरूचुली |

| | | |
|--------------------|-----|--|
| | 9. | तहसीलदार, परमाकुडी |
| | 10. | तहसीलदार, तिरुवडनाई |
| | 11. | तहसीलदार, रामानाथपुरम |
| | 12. | तहसीलदार, मुदुकुलथूर |
| 36-थूथुक्कुडी | 1. | जिला आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, थूथुक्कुडी |
| | 2. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, थूथुक्कुडी |
| | 3. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, तिरुचैदुर |
| | 4. | जिला पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, थूथुक्कुडी |
| | 5. | सहायक आयुक्त (उत्पाद शुल्क), थूथुक्कुडी |
| | 6. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, कोविलपट्टी थूथुक्कुडी |
| | 7. | तहसीलदार, विलाथीकुलम |
| | 8. | तहसीलदार, थूथुक्कुडी |
| | 9. | तहसीलदार, तिरुचैदुर |
| | 10. | तहसीलदार, श्रीवडकुनटम |
| | 11. | तहसीलदार, ओट्टापिदरम |
| | 12. | तहसीलदार, कोविलपट्टी |
| 37-टेनकासी (अ.जा.) | 1. | जिला आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, विरूधुनगर |
| | 2. | सहायक आयुक्त (राजस्व शुल्क), विरूधुनगर |
| | 3. | उप कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, संकरनकोविल |
| | 4. | जिला आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, टेनकासी |
| | 5. | विशेष उप कलक्टर (सामाजिक सुरक्षा योजना), टेनकासी |
| | 6. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, टेनकासी |
| | 7. | तहसीलदार, राजापालयम |
| | 8. | तहसीलदार, श्रीविल्लीपुथुर |
| | 9. | तहसीलदार, संकरनकोविल |
| | 10. | तहसीलदार, शिवगिरि |
| | 11. | तहसीलदार, कडयनल्लुर |
| | 12. | तहसीलदार, टेनकासी |
| 38-तिरुनेलवेली | 1. | निरीक्षण कक्ष अधिकारी, तिरुनेलवेली |
| | 2. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, तिरुनेलवेली |
| | 3. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, चेरनमहादेवी |
| | 4. | आयुक्त, तिरुनेलवेली सिटी नगर निगम, तिरुनेलवेली |
| | 5. | जिला आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, तिरुनेलवेली |
| | 6. | जिला पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, तिरुनेलवेली |
| | 7. | तहसीलदार, अलंगुलम |
| | 8. | तहसीलदार, तिरुनेलवेली |
| | 9. | तहसीलदार, अम्बासमुथिरम |
| | 10. | तहसीलदार, पालयमकोट्टी |
| | 11. | तहसीलदार, नानगुनेरी |
| | 12. | तहसीलदार, राधापुरम |
| 39-कन्याकुमारी | 1. | जिला आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, नागरकोइल, कन्याकुमारी जिला |
| | 2. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, नागरकोइल |
| | 3. | जिला आदि-द्रविड़ और जनजातीय कल्याण अधिकारी, नागरकोइल, कन्याकुमारी जिला |

| | |
|-----|---|
| 4. | उप-कलक्टर/सहायक कलक्टर/राजस्व डिवीजनल अधिकारी, पद्मनाभपुरम |
| 5. | जिला पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, नागरकोईल कन्याकुमारी जिला |
| 6. | सहायक आयुक्त (उत्पाद शुल्क), नागरकोईल कन्याकुमारी जिला, |
| 7. | सहायक निदेशक, ग्रामीण विकास, (पंचायत), नागरकोईल |
| 8. | सहायक निदेशक (नगर पंचायत), नागरकोईल |
| 9. | कलक्टर के निजी सहायक (विकास) नागरकोईल, कन्याकुमारी जिला |
| 10. | ग्रामीण विकास, सहायक निदेशक, (लेखापरीक्षा) नागरकोईल, कन्याकुमारी जिला |
| 11. | कलक्टर के अपर निजी सहायक (भूमि), नागरकोईल में कन्याकुमारी जिला |
| 12. | विशेष उप कलक्टर (सामाजिक सुरक्षा योजना), नागरकोईल में कन्याकुमारी जिला |

[सं. 434/टीएन-एचपी/2023 (2)]

आदेश से,

मलय मल्लिक, प्रधान सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2023

O.N. 70(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its earlier notification no. 434/TN-HP/2019 (2) dated 04-02-2019 as amended from time to time, the Election Commission of India hereby designates, in consultation with the State Government of Tamil Nadu, the officers of Government specified in column (2) of the Table below, as the Assistant Returning Officers to assist the Returning Officer concerned of the Parliamentary Constituency in the Tamil Nadu State, as specified in column (1) of the said Table against such officer.

TABLE

| No. and Name of the Parliamentary Constituency | Assistant Returning Officer |
|--|--|
| (1) | (2) |
| 1-TIRUVALLUR (SC) | 1. Special Deputy Collector (Social Security Scheme), Tiruvallur. 2. Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Ponneri. 3. District Backward Classes and Minorities Welfare Officer, Tiruvallur. 4. Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Tiruvallur. 5. Commissioner, Avadi Corporation, Avadi. 6. District Supply and Consumer Protection Officer, Tiruvallur. 7. Tahsildar, Gummidipoondi. 8. Tahsildar, Ponneri. 9. Tahsildar, Tiruvallur. 10. Tahsildar, Poonamallee. 11. Tahsildar, Avadi. 12. Tahsildar, Madhavaram. |
| 2-CHENNAI NORTH | 1. Zonal Officer, Zone-I (Thiruvottiyur), Greater Chennai Corporation, No.947, Thiruvottiyur High Road, Chennai-19. 2. Joint Director, Directorate/Commissionerate of Adi-Dravidar and Tribal Welfare, Chepauk, Chennai-5. 3. District Revenue Officer, 62, Rajaji Salai, Singaravelar Maligai, Chennai Collectorate, Chennai-1. 4. Joint Commissioner-I, O/o. the Commissioner of Prohibition and Excise, Chepauk, Chennai-5. 5. General Manager, Tamil Nadu Sugar Corporation Ltd., Chennai-35. 6. General Manager, Tamil Nadu Small Industries Development Corporation Limited (TANSIDCO), Chennai-32. |

| | | |
|-------------------|-----|---|
| | 7. | Tahsildar, Thiruvotriyur, Thiruvotriyur High Road, Chennai. |
| | 8. | Special Tahsildar (Land and Estate), Greater Chennai Corporation, Chennai-3. |
| | 9. | Taluk Excise Officer, Perambur High Road, Perambur, Chennai-11. |
| | 10. | Tahsildar, Perambur, Perambur High Road, Opp. Railway Station, Chennai-11. |
| | 11. | Special Tahsildar (Stamps-I), Office of the District Revenue Officer (Stamps), Chennai Collectorate, Chennai-1. |
| | 12. | Tahsildar, Purasawalkam, Near Nehru Stadium, Raja Muthaiah Road, Chennai-3. |
| 3-CHENNAI SOUTH | 1. | Senior Regional Manager, Tamil Nadu State Marketing Corporation Ltd., (TASMAC), Mount Road, Chennai. |
| | 2. | Secretary, Tamil Nadu Slum Clearance Board, Kamarajar Salai, Chennai. |
| | 3. | District Revenue Officer (Land and Estate), Greater Chennai Corporation, Chennai-3. |
| | 4. | General Manager, Tamil Nadu Corporation for Development of Women Limited, Chennai-34. |
| | 5. | Joint Director (Disaster Management), Tamil Nadu Disaster Risk Reduction Agency, Ezhilagam, Chepauk, Chennai-5. |
| | 6. | Assistant Commissioner (Excise), Chengalpattu. |
| | 7. | Tahsildar (Disaster Management), Tamil Nadu Disaster Risk Reduction Agency, Chennai Collectorate, Singaravelar Maligai, Chennai-1. |
| | 8. | Special Tahsildar (ULT), O/o. The Tahsildar, Mambalam, Chennai-78. |
| | 9. | Tahsildar, Mambalam, Chennai-78. |
| | 10. | Tahsildar, Mylapore, Chennai-28. |
| | 11. | Special Tahsildar (ULT), O/o. The Tahsildar, Mylapore, Chennai-28. |
| | 12. | Tahsildar, Shozhinganallur, Old Mahabalipuram Road, Chennai-114. |
| 4-CHENNAI CENTRAL | 1. | General Manager/District Revenue Officer, State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited, Egmore, Chennai-8. |
| | 2. | Settlement Officer, O/o. the Director/Commissioner of Survey and Settlement, Chepauk, Chennai-5. |
| | 3. | Additional Director of Medical & Rural Health Services (Administration), Directorate of Medical and Rural Health Services, Chennai-6. |
| | 4. | General Manager (Marketing), Tamil Nadu Cements Corporation Ltd., Chennai. |
| | 5. | General Manager, Tamil Nadu Medicinal Plant Farms & Herbal Medicine Corporation Limited (TAMPCOL), Chennai-106. |
| | 6. | General Manager (Administration), Tamil Nadu Arasu Cable TV Corporation Ltd., Chennai. |
| | 7. | Special Tahsildar (Land Acquisition and Management), Highways, Thiruvottiyur Unit, Singaravelar Maligai, Rajaji Salai, Chennai Collectorate, Chennai-1. |
| | 8. | Huzur Sarishtadhar (ULT), Collectorate, Chennai-1. |
| | 9. | Special Tahsildar (ULT), Purasawalkam, Chennai-3. |
| | 10. | Taluk Excise Officer, Mylapore, Chennai-28. |
| | 11. | Taluk Excise Officer, O/o. The Tahsildar, Egmore, Spurtank Road, Chennai-31. |
| | 12. | Tahsildar, Egmore, Spurtank Road, Chetput, Chennai-31. |
| 5-SRIPERUMBUDUR | 1. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Central Chennai Division. |
| | 2. | Assistant Commissioner and Zonal Officer VII, Greater Chennai Corporation. |
| | 3. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Sriperumbudur. |
| | 4. | Assistant Commissioner and Zonal Officer XII, Greater Chennai Corporation. |
| | 5. | Additional Personal Assistant (Lands) to the Collector, Chengalpattu. |
| | 6. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Tambaram. |

| | | |
|---------------------|-----|---|
| | 7. | Tahsildar, Kundrathur. |
| | 8. | Tahsildar, Ambattur. |
| | 9. | Tahsildar, Alandur. |
| | 10. | Tahsildar, Sriperumbudur. |
| | 11. | Tahsildar, Pallavaram. |
| | 12. | Tahsildar, Tambaram. |
| 6-KANCHEEPURAM (SC) | 1. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Chengalpattu. |
| | 2. | District Backward Classes and Minorities Welfare Officer, Chengalpattu. |
| | 3. | District Supply and Consumer Protection Officer, Chengalpattu. |
| | 4. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Madurantakam. |
| | 5. | District Supply and Consumer Protection Officer, Kancheepuram. |
| | 6. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Kancheepuram. |
| | 7. | Tahsildar, Chengalpattu. |
| | 8. | Tahsildar, Thiruporur. |
| | 9. | Tahsildar, Cheyyur. |
| | 10. | Tahsildar, Madurantakam. |
| | 11. | Tahsildar, Uthiramerur. |
| | 12. | Tahsildar, Kancheepuram. |
| 7-ARAKKONAM | 1. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Tiruttani. |
| | 2. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Arakkonam. |
| | 3. | Assistant Commissioner (Excise), Ranipet. |
| | 4. | Special Deputy Collector (Social Security Scheme), Vellore. |
| | 5. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Ranipet. |
| | 6. | District Supply and Consumer Protection Officer, Ranipet. |
| | 7. | Tahsildar, Tiruttani. |
| | 8. | Tahsildar, Arakkonam. |
| | 9. | Tahsildar, Nemili. |
| | 10. | Tahsildar, Katpadi. |
| | 11. | Tahsildar, Walajah. |
| | 12. | Tahsildar, Arcot. |
| 8-VELLORE | 1. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Vellore. |
| | 2. | Assistant Commissioner (Excise), Vellore. |
| | 3. | District Supply and Consumer Protection Officer, Vellore. |
| | 4. | Sub Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Gudiyatham. |
| | 5. | Sub Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Vaniyambadi. |
| | 6. | Special Deputy Collector (Social Security Scheme), Tirupathur. |
| | 7. | Tahsildar, Vellore. |
| | 8. | Tahsildar, Anaikattu. |
| | 9. | Tahsildar, K.V. Kuppam. |
| | 10. | Tahsildar, Gudiyatham. |
| | 11. | Tahsildar, Vaniyambadi. |
| | 12. | Tahsildar, Ambur. |
| 9-KRISHNAGIRI | 1. | District Adi-Dravidar and Tribal Welfare Officer, Krishnagiri. |
| | 2. | Special Deputy Collector (Social Security Scheme), Krishnagiri. |
| | 3. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Krishnagiri. |
| | 4. | District Supply and Consumer Protection Officer, Krishnagiri. |
| | 5. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Hosur. |
| | 6. | Assistant Commissioner (Excise), Krishnagiri. |
| | 7. | Tahsildar, Uthangarai. |
| | 8. | Tahsildar, Bargur. |
| | 9. | Tahsildar, Krishnagiri. |
| | 10. | Tahsildar, Shoolagiri. |
| | 11. | Tahsildar, Hosur. |

| | | |
|--------------------|-----|---|
| | 12. | Tahsildar, Denkanikottai. |
| 10-DHARMAPURI | 1. | Special Deputy Collector (Social Security Scheme), Dharmapuri. |
| | 2. | Assistant Commissioner (Excise), Dharmapuri. |
| | 3. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Dharmapuri. |
| | 4. | Additional Personal Assistant to Collector (Lands), Dharmapuri. |
| | 5. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Harur. |
| | 6. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Mettur. |
| | 7. | Tahsildar, Palacode. |
| | 8. | Tahsildar, Pennagaram. |
| | 9. | Tahsildar, Dharmapuri. |
| | 10. | Tahsildar, Pappireddipatti. |
| | 11. | Tahsildar, Harur. |
| | 12. | Tahsildar, Mettur. |
| 11-TIRUVANNAMALAI | 1. | Additional Personal Assistant (Land) to the Collector, Tirupathur. |
| | 2. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Tirupathur. |
| | 3. | Special Deputy Collector (Social Security Scheme), Tiruvannamalai. |
| | 4. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Tiruvannamalai. |
| | 5. | Assistant Commissioner (Excise), Tiruvannamalai. |
| | 6. | District Adi-Dravidar and Tribal Welfare Officer, Tiruvannamalai. |
| | 7. | Tahsildar, Natrampalli. |
| | 8. | Tahsildar, Tirupathur. |
| | 9. | Special Tahsildar (Social Security Scheme), Chengam. |
| | 10. | Personal Assistant to Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Tiruvannamalai. |
| | 11. | Special Tahsildar (Social Security Scheme), Kilpennathur. |
| | 12. | Special Tahsildar (Social Security Scheme), Kalasapakkam. |
| 12-ARANI | 1. | District Supply and Consumer Protection Officer, Tiruvannamalai. |
| | 2. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Arani. |
| | 3. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Cheyyar. |
| | 4. | District Backward Classes and Minorities Welfare Officer, Tiruvannamalai. |
| | 5. | District Adi-Dravidar and Tribal Welfare Officer, Viluppuram. |
| | 6. | Special Deputy Collector (Social Security Scheme), Viluppuram. |
| | 7. | Special Tahsildar (Social Security Scheme), Polur. |
| | 8. | Personal Assistant to Sub-Collector/ Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Arani. |
| | 9. | Personal Assistant to Sub-Collector/ Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Cheyyar. |
| | 10. | Special Tahsildar (Social Security Scheme), Vandavasi. |
| | 11. | Special Tahsildar (Adi-Dravidar Welfare), Gingee. |
| | 12. | Special Tahsildar (Stamps), Tindivanam. |
| 13-VILUPPURAM (SC) | 1. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Tindivanam. |
| | 2. | Assistant Commissioner (Excise), Viluppuram. |
| | 3. | Sub-Collector/Assistant Collector /Revenue Divisional Officer, Viluppuram. |
| | 4. | District Supply and Consumer Protection Officer, Viluppuram. |
| | 5. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Tirukkailur. |
| | 6. | Assistant Commissioner (Excise), Kallakurichi. |
| | 7. | Special Tahsildar (Social Security Scheme), Tindivanam. |
| | 8. | Special Tahsildar (Social Security Scheme), Vanur. |
| | 9. | Special Tahsildar (Social Security Scheme), Viluppuram. |
| | 10. | Special Tahsildar (Civil Supplies), Viluppuram. |
| | 11. | Special Tahsildar (Social Security Scheme), Tirukkailur. |
| | 12. | Special Tahsildar (Social Security Scheme), Ulundurpet. |
| 14- KALLAKURICHI | 1. | Special Deputy Collector (Social Security Scheme). Kallakurichi. |

| | | |
|-------------|-----|---|
| | 2. | District Backward Classes and Minorities Welfare Officer, Kallakurichi. |
| | 3. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Kallakurichi. |
| | 4. | District Supply and Consumer Protection Officer, Salem. |
| | 5. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Attur. |
| | 6. | Special Deputy Collector (Stamps), Salem. |
| | 7. | Special Tahsildar (Social Security Scheme), Vanapuram. |
| | 8. | Special Tahsildar (Social Security Scheme), Sankarapuram. |
| | 9. | Special Tahsildar (Social Security Scheme), Kallakurichi. |
| | 10. | Tahsildar, Gangavalli. |
| | 11. | Tahsildar, Attur. |
| | 12. | Tahsildar, Vazhappadi. |
| 15-SALEM | 1. | Additional Personal Assistant (Land) to Collector, Salem. |
| | 2. | Assistant Commissioner (Excise), Collectorate, Salem. |
| | 3. | Special Deputy Collector (Social Security Scheme), Salem. |
| | 4. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Salem. |
| | 5. | Commissioner, Salem City Municipal Corporation, Salem. |
| | 6. | District Backward Classes and Minorities Welfare Officer, Salem. |
| | 7. | Tahsildar, Omalur. |
| | 8. | Tahsildar, Edappadi. |
| | 9. | Tahsildar, Salem (West). |
| | 10. | Tahsildar, Salem. |
| | 11. | Assistant Commissioner, Kondalampatty Ward, Zone-IV, Salem City Municipal Corporation, Salem. |
| | 12. | Tahsildar, Salem South. |
| 16-NAMAKKAL | 1. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Sankari. |
| | 2. | District Supply and Consumer Protection Officer, Namakkal. |
| | 3. | Special Deputy Collector (Social Security Scheme), Namakkal. |
| | 4. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Namakkal. |
| | 5. | District Backward Classes and Minorities Welfare Officer, Namakkal. |
| | 6. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Tiruchengode. |
| | 7. | Tahsildar, Sankari. |
| | 8. | Tahsildar, Rasipuram. |
| | 9. | Tahsildar, Senthamangalam. |
| | 10. | Tahsildar, Namakkal. |
| | 11. | Tahsildar, Paramathi-Velur. |
| | 12. | Tahsildar, Tiruchengode. |
| 17-ERODE | 1. | District Adi-Dravidar Welfare Officer, Namakkal. |
| | 2. | Commissioner, Erode City Municipal Corporation, Erode. |
| | 3. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Erode. |
| | 4. | Assistant Commissioner (Excise), Erode. |
| | 5. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Dharapuram. |
| | 6. | Assistant Commissioner (Excise), Tiruppur. |
| | 7. | Tahsildar, Kumarapalayam. |
| | 8. | Special Tahsildar (Social Security Scheme), Erode. |
| | 9. | Tahsildar, Erode. |
| | 10. | Tahsildar, Modakkurichi. |
| | 11. | Tahsildar, Dharapuram. |
| | 12. | Tahsildar, Kangayam. |
| 18-TIRUPPUR | 1. | District Supply and Consumer Protection Officer, Erode. |
| | 2. | District Adi-Dravidar and Tribal Welfare Officer, Erode. |
| | 3. | District Backward Classes and Minorities Welfare Officer, Erode. |
| | 4. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Gobichettipalayam. |
| | 5. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Tiruppur. |
| | 6. | Commissioner, Tiruppur City Municipal Corporation, Tiruppur. |
| | 7. | Tahsildar, Perundurai. |

| | | |
|-------------------|-----|--|
| | 8. | Tahsildar, Bhavani. |
| | 9. | Tahsildar, Anthiyur. |
| | 10. | Tahsildar, Gobichettipalayam. |
| | 11. | Tahsildar, Tiruppur (North). |
| | 12. | Assistant Commissioner (Zone III), Tiruppur City Municipal Corporation, Tiruppur. |
| 19- NILGIRIS (SC) | 1. | Assistant Director (Panchayats), Erode. |
| | 2. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Udhagamandalam. |
| | 3. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Gudalur. |
| | 4. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Coonoor. |
| | 5. | District Supply and Consumer Protection Officer, Coimbatore. |
| | 6. | District Backward Classes and Minorities Welfare Officer, Tiruppur. |
| | 7. | Tahsildar, Sathyamangalam. |
| | 8. | Tahsildar, Udhagamandalam. |
| | 9. | Tahsildar, Gudalur. |
| | 10. | Tahsildar, Coonoor. |
| | 11. | Tahsildar, Mettupalayam. |
| | 12. | Tahsildar, Avinashi. |
| 20-COIMBATORE | 1. | District Supply and Consumer Protection Officer, Tiruppur. |
| | 2. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Coimbatore North. |
| | 3. | Assistant Commissioner (Urban Land Tax), Coimbatore. |
| | 4. | Special Deputy Collector (Social Security Scheme), Coimbatore. |
| | 5. | Deputy Commissioner, Coimbatore City Municipal Corporation, Coimbatore. |
| | 6. | District Adi-Dravidar and Tribal Welfare Officer, Coimbatore. |
| | 7. | Tahsildar, Palladam. |
| | 8. | Tahsildar, Sulur. |
| | 9. | Tahsildar, Coimbatore North. |
| | 10. | Tahsildar, Coimbatore (South) |
| | 11. | Assistant Commissioner (Central), Coimbatore City Municipal Corporation, Coimbatore. |
| | 12. | Special Tahsildar (Civil Supplies), Coimbatore North. |
| 21-POLLACHI | 1. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Coimbatore. |
| | 2. | District Backward Classes and Minorities Welfare Officer, Coimbatore. |
| | 3. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Pollachi. |
| | 4. | District Inspection Cell Officer, Coimbatore. |
| | 5. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Udumalaipettai. |
| | 6. | District Adi-Dravidar and Tribal Welfare Officer, Tiruppur. |
| | 7. | Tahsildar, Madukkarai. |
| | 8. | Tahsildar, Perur. |
| | 9. | Tahsildar, Pollachi. |
| | 10. | Tahsildar, Valparai. |
| | 11. | Tahsildar, Udumalaipettai. |
| | 12. | Tahsildar, Madathukulam. |
| 22-DINDIGUL | 1. | Sub-Collector/Assistant Collector/ Revenue Divisional Officer, Palani. |
| | 2. | Assistant Commissioner (Excise), Dindigul. |
| | 3. | Special Deputy Collector (Social Security Scheme), Dindigul. |
| | 4. | District Backward Classes and Minorities Welfare Officer, Dindigul. |
| | 5. | District Adi-Dravidar and Tribal Welfare Officer, Dindigul. |
| | 6. | Sub-Collector/Assistant Collector/ Revenue Divisional Officer, Dindigul. |
| | 7. | Tahsildar, Palani. |
| | 8. | Tahsildar, Oddanchatram. |
| | 9. | Tahsildar, Athoor. |
| | 10. | Tahsildar, Nilakottai. |
| | 11. | Tahsildar, Natham. |

| | | |
|---------------------|-----|--|
| 23-KARUR | 12. | Tahsildar, Dindigul (West) |
| | 1. | District Supply and Consumer Protection Officer, Dindigul. |
| | 2. | Assistant Commissioner (Excise), Karur. |
| | 3. | Sub-Collector/Assistant Collector/ Revenue Divisional Officer, Karur. |
| | 4. | District Supply and Consumer Protection Officer, Karur. |
| | 5. | District Backward Classes and Minorities Welfare Officer, Tiruchirappalli. |
| | 6. | Sub-Collector/Assistant Collector/ Revenue Divisional Officer, Illuppur. |
| | 7. | Tahsildar, Vendasandur. |
| | 8. | Tahsildar, Aravakurichi. |
| | 9. | Tahsildar, Karur. |
| | 10. | Tahsildar, Krishnarayapuram. |
| | 11. | Tahsildar, Manapparai. |
| 24-TIRUCHIRAPPALLI | 12. | Tahsildar, Illuppur. |
| | 1. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Srirangam. |
| | 2. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Tiruchirappalli. |
| | 3. | Assistant Commissioner, Ariyamangalam Zone City Corporation, Tiruchirappalli. |
| | 4. | District Supply and Consumer Protection Officer, Tiruchirappalli. |
| | 5. | District Adi-Dravidar and Tribal Welfare Officer, Pudukkottai. |
| | 6. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Pudukkottai. |
| | 7. | Tahsildar, Srirangam. |
| | 8. | Tahsildar, Tiruchirappalli (West). |
| | 9. | Tahsildar, Tiruchirappalli (East). |
| | 10. | Tahsildar, Tiruverumbur. |
| | 11. | Tahsildar, Gandarvakottai. |
| 25-PERAMBALUR | 12. | Tahsildar, Pudukkottai. |
| | 1. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Kulithalai. |
| | 2. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Lalgudi. |
| | 3. | Assistant Commissioner (Excise), Tiruchirappalli. |
| | 4. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Musiri. |
| | 5. | Special Deputy Collector (Stamps), Tiruchirappalli. |
| | 6. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Perambalur. |
| | 7. | Tahsildar, Kulithalai. |
| | 8. | Tahsildar, Lalgudi. |
| | 9. | Tahsildar, Manachanallur. |
| | 10. | Tahsildar, Thottiyam. |
| | 11. | Tahsildar, Thuraiyur. |
| 26-CUDDALORE | 12. | Tahsildar, Perambalur. |
| | 1. | District Backward Classes and Minorities Welfare Officer, Cuddalore. |
| | 2. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Virudhachalam. |
| | 3. | Special Deputy Collector (Land Acquisition), Neyveli. |
| | 4. | District Adi-Dravidar and Tribal Welfare Officer, Cuddalore. |
| | 5. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Cuddalore. |
| | 6. | Special Deputy Collector (Stamps), Cuddalore. |
| | 7. | Tahsildar, Tittakudi. |
| | 8. | Tahsildar, Virudhachalam. |
| | 9. | Special Tahsildar (Land Acquisition), No.XV, Neyveli. |
| | 10. | Tahsildar, Panruti. |
| | 11. | Tahsildar, Cuddalore. |
| 27-CHIDAMBARAM (SC) | 12. | Tahsildar, Kurinjipadi. |
| | 1. | District Supply and Consumer Protection Officer, Perambalur. |
| | 2. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Ariyalur. |

| | | |
|----------------------|-----|---|
| | 3. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Udayarpalayam. |
| | 4. | District Supply and Consumer Protection Officer, Cuddalore. |
| | 5. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Chidambaram. |
| | 6. | Assistant Commissioner (Excise), Cuddalore. |
| | 7. | Tahsildar, Kunnam. |
| | 8. | Tahsildar, Ariyalur. |
| | 9. | Tahsildar, Udayarpalayam at Jayankondam. |
| | 10. | Tahsildar, Bhuvanagiri. |
| | 11. | Tahsildar, Chidambaram. |
| | 12. | Tahsildar, Kattumannarkoil. |
| 28-MAYILADUTHURAI | 1. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Sirkazhi. |
| | 2. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Mayiladuthurai. |
| | 3. | Special Deputy Collector (Social Security Scheme), Mayiladuthurai. |
| | 4. | District Supply and Consumer Protection Officer, Thanjavur. |
| | 5. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Kumbakonam. |
| | 6. | District Adi-Dravidar and Tribal Welfare Officer, Thanjavur. |
| | 7. | Tahsildar, Sirkazhi. |
| | 8. | Tahsildar, Mayiladuthurai. |
| | 9. | Tahsildar, Tharangambady. |
| | 10. | Tahsildar, Thiruvidaimaruthur. |
| | 11. | Tahsildar, Kumbakonam. |
| | 12. | Tahsildar, Papanasam. |
| 29-NAGAPATTINAM (SC) | 1. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Nagapattinam. |
| | 2. | District Adi-Dravidar and Tribal Welfare Officer, Nagapattinam. |
| | 3. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Vedaranyam. |
| | 4. | District Supply and Consumer Protection Officer, Tiruvarur. |
| | 5. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Tiruvarur. |
| | 6. | Assistant Commissioner (Excise), Tiruvarur. |
| | 7. | Personal Assistant to Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Nagapattinam. |
| | 8. | Special Tahsildar (Social Security Scheme), Kilvelur. |
| | 9. | Personal Assistant to Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Vedaranyam. |
| | 10. | Taluk Supply Officer, Thiruthuraiipoondi. |
| | 11. | Personal Assistant to Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Tiruvarur. |
| | 12. | Tahsildar, Kodavasal. |
| 30-THANJAVUR | 1. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Mannargudi. |
| | 2. | Assistant Commissioner (Excise), Thanjavur. |
| | 3. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Thanjavur. |
| | 4. | District Backward Classes and Minorities Welfare Officer, Thanjavur. |
| | 5. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Pattukkottai. |
| | 6. | Special Deputy Collector (Stamps), Thanjavur. |
| | 7. | Tahsildar, Mannargudi. |
| | 8. | Tahsildar, Thiruvaiyaru. |
| | 9. | Tahsildar, Thanjavur. |
| | 10. | Tahsildar, Orathanadu. |
| | 11. | Tahsildar, Pattukkottai. |
| | 12. | Tahsildar, Peravurani. |
| 31-SIVAGANGA | 1. | Assistant Commissioner (Excise), Pudukkottai. |

| | | |
|-------------------|-----|--|
| | 2. | District Supply and Consumer Protection Officer, Pudukkottai. |
| | 3. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Devakottai. |
| | 4. | Additional Personal Assistant to the Collector (Land), Sivaganga. |
| | 5. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Sivaganga. |
| | 6. | District Backward Classes and Minorities Welfare Officer, Sivaganga. |
| | 7. | Tahsildar, Thirumayam. |
| | 8. | Tahsildar, Alangudi. |
| | 9. | Tahsildar, Karaikudi. |
| | 10. | Tahsildar, Tiruppathur. |
| | 11. | Tahsildar, Sivaganga. |
| | 12. | Tahsildar, Manamadurai. |
| 32-MADURAI | 1. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Melur. |
| | 2. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Madurai. |
| | 3. | District Manager, Tamil Nadu State Marketing Corporation Ltd. (TASMAC), Madurai South. |
| | 4. | Assistant Commissioner, Madurai Corporation, Zone-4. |
| | 5. | Special Deputy Collector (Revenue Court), Madurai. |
| | 6. | Assistant Commissioner (Excise), Madurai. |
| | 7. | Assistant Director (Panchayat), Madurai. |
| | 8. | Special Deputy Collector (Social Security Scheme), Madurai. |
| | 9. | Assistant Commissioner (ULT), Madurai. |
| | 10. | Inspection Cell Officer, Madurai. |
| | 11. | Special Deputy Collector (Stamps), Madurai. |
| | 12. | Assistant Director (Audit), Rural Development, Madurai. |
| 33-THENI | 1. | District Backward Classes and Minorities Welfare Officer, Madurai. |
| | 2. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Usilampatti. |
| | 3. | Assistant Commissioner (Excise), Theni. |
| | 4. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Periyakulam. |
| | 5. | District Supply and Consumer Protection Officer, Theni. |
| | 6. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Uthamapalayam. |
| | 7. | Tahsildar, Vadipatti. |
| | 8. | Tahsildar, Usilampatti. |
| | 9. | Tahsildar, Andipatti. |
| | 10. | Tahsildar, Periyakulam. |
| | 11. | Tahsildar, Bodinayakanur. |
| | 12. | Tahsildar, Uthamapalayam. |
| 34-VIRUDHUNAGAR | 1. | District Supply and Consumer Protection Officer, Madurai. |
| | 2. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Thirumangalam. |
| | 3. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Sattur. |
| | 4. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Sivakasi. |
| | 5. | District Backward Classes and Minorities Welfare Officer, Virudhunagar. |
| | 6. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Aruppukottai. |
| | 7. | Assistant Director of Town Panchayat, Madurai. |
| | 8. | District Adi-Dravidar and Tribal Welfare Officer, Madurai. |
| | 9. | Tahsildar, Sattur. |
| | 10. | Tahsildar, Sivakasi. |
| | 11. | Tahsildar, Virudhunagar. |
| | 12. | Tahsildar, Aruppukottai. |
| 35-RAMANATHAPURAM | 1. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Aranthangi. |
| | 2. | District Adi-Dravidar and Tribal Welfare Officer, Virudhunagar. |
| | 3. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, |

| | | |
|------------------|-----|--|
| | | Paramakudi. |
| | 4. | District Supply and Consumer Protection Officer, Ramanathapuram. |
| | 5. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Ramanathapuram. |
| | 6. | District Backward Classes and Minorities Welfare Officer, Ramanathapuram. |
| | 7. | Tahsildar, Aranthangi. |
| | 8. | Tahsildar, Tiruchuli. |
| | 9. | Tahsildar, Paramakudi. |
| | 10. | Tahsildar, Tiruvadanai. |
| | 11. | Tahsildar, Ramanathapuram. |
| | 12. | Tahsildar, Mudukulathur. |
| 36-THOOTHUKKUDI | 1. | District Supply and Consumer Protection Officer, Thoothukudi. |
| | 2. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Thoothukudi. |
| | 3. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Tiruchendur. |
| | 4. | District Backward Classes and Minorities Welfare Officer, Thoothukudi. |
| | 5. | Assistant Commissioner (Excise), Thoothukudi. |
| | 6. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Kovilpatti. |
| | 7. | Tahsildar, Vilathikulam. |
| | 8. | Tahsildar, Thoothukudi. |
| | 9. | Tahsildar, Tiruchendur. |
| | 10. | Tahsildar, Srivaikuntam. |
| | 11. | Tahsildar, Ottapidaram. |
| | 12. | Tahsildar, Kovilpatti. |
| 37-TENKASI (SC) | 1. | District Supply and Consumer Protection Officer, Virudhunagar. |
| | 2. | Assistant Commissioner (Excise), Virudhunagar. |
| | 3. | Sub Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Sankarankovil. |
| | 4. | District Supply and Consumer Protection Officer, Tenkasi. |
| | 5. | Special Deputy Collector (Social Security Scheme), Tenkasi. |
| | 6. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Tenkasi. |
| | 7. | Tahsildar, Rajapalayam. |
| | 8. | Tahsildar, Srivilliputhur. |
| | 9. | Tahsildar, Sankarankovil. |
| | 10. | Tahsildar, Sivagiri. |
| | 11. | Tahsildar, Kadayanallur. |
| | 12. | Tahsildar, Tenkasi. |
| 38-TIRUNELVELI | 1. | Inspection Cell Officer, Tirunelveli. |
| | 2. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Tirunelveli. |
| | 3. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Cheranmahadevi. |
| | 4. | Commissioner, Tirunelveli City Municipal Corporation, Tirunelveli. |
| | 5. | District Supply and Consumer Protection Officer, Tirunelveli. |
| | 6. | District Backward Classes and Minorities Welfare Officer, Tirunelveli. |
| | 7. | Tahsildar, Alangulam. |
| | 8. | Tahsildar, Tirunelveli. |
| | 9. | Tahsildar, Ambasamuthiram. |
| | 10. | Tahsildar, Palayamkottai. |
| | 11. | Tahsildar, Nanguneri. |
| | 12. | Tahsildar, Radhapuram. |
| 39-KANNIYAKUMARI | 1. | District Supply and Consumer Protection Officer, Kanniyakumari district at Nagercoil. |
| | 2. | Sub-Collector/Assistant Collector/Revenue Divisional Officer, Nagercoil. |
| | 3. | District Adi-Dravidar and Tribal Welfare Officer, Kanniyakumari district at Nagercoil. |

| | | |
|--|-----|--|
| | 4. | Sub-Collector/Assistant Collector/ Revenue Divisional Officer, Padmanabhapuram. |
| | 5. | District Backward Classes and Minorities Welfare Officer, Kanniyakumari district at Nagercoil. |
| | 6. | Assistant Commissioner (Excise), Kanniyakumari district at Nagercoil. |
| | 7. | Assistant Director of Rural Development (Panchayat), Nagercoil. |
| | 8. | Assistant Director (Town Panchayat), Nagercoil. |
| | 9. | Personal Assistant (Development) to Collector, Kanniyakumari district at Nagercoil. |
| | 10. | Assistant Director of Rural Development (Audit), Kanniyakumari District at Nagercoil. |
| | 11. | Additional Personal Assistant (Land) to Collector, Kanniyakumari District at Nagercoil. |
| | 12. | Special Deputy Collector (Social Security Scheme), Kanniyakumari district at Nagercoil. |

[F. No. 434/TN-HP/2023 (2)]

By Order,

MALAY MALLICK, Principal Secy.